



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 30.06.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

जनपद खीरी से 04 उपनिरीक्षक सेवानिवृत्त हुए



आज दिनांक 30.06.2021 को जनपद खीरी से 04 उपनिरीक्षकगण अधिवर्षता आयु पूर्ण कर पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर पुलिस लाइन सभागार में आयोजित विदाई समारोह के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री विजय दुल द्वारा सेवानिवृत्त हुए पुलिसकर्मियों को माला व अंगवस्त्र पहनाकर तथा प्रशस्ति पत्र व उपहार भेंट कर उनके आगामी सुखमय जीवन की शुभकामनाओं सहित विदा किया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक खीरी, क्षेत्राधिकारी सदर, प्रतिसार निरीक्षक आदि अधिकारीगण ने भी सेवानिवृत्त हुए पुलिसकर्मियों को अपनी शुभकामनायें दी गईं।

सेवानिवृत्त हुए पुलिसकर्मियों का विवरण निम्नवत है:-

- 1.उ0नि0 अशोक त्रिपाठी
- 2.उ0नि0 राजेश कुमार श्रीवास्तव
- 3.उ0नि0 शंखधर भट्ट
- 4.उ0नि0 अशोक कुमार सिंह

“मिशन शक्ति” अभियान के तहत जागरुकता व आत्मरक्षा से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन



पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक, श्री अरुण कुमार के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी के समस्त थानों में पशुपालन/ ईट भट्टों में काम करने वाली महिलाओं व लड़कियों एवं स्कूल/कॉलेज छोड़ चुकी बच्चियों/लड़कियों व नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं/महिलाओं को जागरुक करने हेतु **मिशन शक्ति** के तहत 07 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 30.06.2021 को जनपद खीरी के समस्त थानों में पुलिस द्वारा “मिशन शक्ति” अभियान के तहत जागरुकता व आत्मरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

जनपद के समस्त थानों की एन्टी रोमियो स्काड/ शक्ति मोबाइल द्वारा विभिन्न ग्रामों/मोहल्लों तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों/पशुपालन इकाईयों/ ईट भट्टों में जाकर उपस्थित महिलाओं/ बालिकाओं को जागरूक करते हुए 1090-वूमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076 -मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा आदि के बारे में जागरूक किया गया तथा प्रत्येक थानों पर महिला शिकायतकर्ता के लिए स्थापित “महिला हेल्प डेस्क” के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गयी, जहाँ पर कोई भी महिला/बालिका अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। एन्टी रोमियो टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मिलने वाली महिलाओं व बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है यदि उनकी कोई समस्या है तो उन्हें नोट कर उसका त्वरित निस्तारण कराया जा रहा है।

थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त आदिल को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियुक्त आदिल पुत्र महताब नि० छऊ कॉलोनी थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 584/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

थाना मितौली पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त उत्तम सिंह पुत्र छोटे सिंह को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटियों/संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 30.06.2021 को थाना मितौली पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 163/2021 धारा 147/148/149/323/504/506/336/427/307 भादवि व 7 CLA एक्ट में वांछित अभियुक्त उत्तम सिंह पुत्र छोटे सिंह नि0 ग्राम डलुआपुर थाना मितौली खीरी जनपद खीरी को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना मितौली पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त नीलू पुत्र महेश चौहान को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटियों/संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 30.06.2021 को थाना मितौली पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 205/21 धारा 363ए/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त नीलू पुत्र महेश चौहान नि0 इस्लामनगर कस्बा व थाना मिलौली खीरी को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना पसगवां पुलिस द्वारा अवैध तलवार बरामद कर मो0 शमीम पुत्र मुंशी को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना पसगवां पुलिस द्वारा अभियुक्त मो0 शमीम पुत्र मुंशी नि0 मो0 प्रेमनगर कस्बा बरवर थाना पसगवां जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तलवार बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 196/21 धारा 4/25 आर्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

1. थाना पलिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 266/21 धारा 323/360/427/506 भादवि में वांछित अभियुत दीपक सिंह पुत्र मदनमोहन नि0 मो0 टेहरा थाना पलिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 115 लीटर अवैध शराब व शराब बनाने के विभिन्न उपकरण सहित 08 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **115 लीटर अवैध कच्ची शराब, 01 शराब भट्टी बरामद कर 08 अभियुक्त** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **08 अभियोग** पंजीकृत किए गए। विवरण निम्नवत है:-

क्र0सं0	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना नीमगांव	20 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना भीरा	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना संपूर्णानगर	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना ईसानगर	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना धौरहरा	15 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना तिकुनिया	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
7.	थाना पसगवां	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	115 लीटर	08 अभियुक्त गिरफ्तार